

**BACHELOR OF SCIENCE (GENERAL)
(BSCG)**

Term-End Examination

December, 2022

BBYCT-133 : PLANT ECOLOGY AND TAXONOMY

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

Note : Attempt any **five** questions. Draw neat and well-labelled diagrams, wherever necessary.

1. Define any **five** of the following : $5 \times 2 = 10$

- (a) Paleoecology
- (b) Ecotone
- (c) Hydrosphere
- (d) Heterotrophs
- (e) Mutualism
- (f) Cation exchange capacity
- (g) Physiognomy
- (h) Trophic levels

- 2.** Make neat and well-labelled diagrams of any ***two*** of the following : **$2 \times 5 = 10$**
- (a) Flow of nitrogen through the environment
 - (b) Herbage cover and basal area
 - (c) Stages of succession on a bare rock
 - (d) Different types of precipitation
- 3.** With the help of well-labelled diagrams, write a detailed account on any ***one*** of the following : **10**
- (a) Soil profile
 - (b) Food web in a grassland
- 4.** (a) List the objectives of plant taxonomy. Describe plant taxonomy in ancient India. **5**
- (b) Describe the construction and use of a taxonomic key. List types of keys and discuss the faults and limitations of each. **5**
- 5.** (a) Discuss how evidence from Phytochemistry can help in solving problem of plant taxonomy by citing an example. **5**
- (b) Explain the concept of taxonomic hierarchy and arrange various categories from highest to lowest. **5**
- 6.** (a) List types of classification and discuss any one of them along with its merits and demerits. **5**
- (b) Explain species concept. **5**

7. Write short notes on any ***four*** of the
following :

$$4 \times 2 \frac{1}{2} = 10$$

- (a) Royal Botanic Gardens, Kew
 - (b) Monograph or Manual
 - (c) Edge-punched card
 - (d) Scientific names and their advantages
 - (e) OTU (Operational Taxonomic Unit)
-

विज्ञान स्नातक (सामान्य)

(बी.एस.सी.जी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2022

बी.बी.वार्ड.सी.टी.-133 : पादप पारिस्थितिकी एवं वर्गीकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । जहाँ आवश्यक हो, स्वच्छ तथा सुनामांकित चित्र बनाइए ।

1. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच को परिभाषित कीजिए : $5 \times 2 = 10$

- (क) पैलियोइकोलॉजी
- (ख) इकोटोन
- (ग) जलमंडल
- (घ) हेटेरोट्रोफस
- (ङ) पारस्परिकता
- (च) धनायन विनियम क्षमता
- (छ) फिजियोग्नोमी
- (ज) पोषक स्तरें

2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए : $2 \times 5 = 10$
- (क) पर्यावरण के माध्यम द्वारा नाइट्रोजन का प्रवाह
 - (ख) घास/शाक कवर तथा बेसल क्षेत्र
 - (ग) अनावृत चट्टान पर अनुक्रमण के विभिन्न चरण
 - (घ) विभिन्न प्रकार की वर्षा
3. निम्नलिखित में से किसी एक पर सुनामांकित चित्रों की सहायता से विस्तार से चर्चा कीजिए : 10
- (क) मिट्टी की रूपरेखा
 - (ख) घास के मैदान में खाद्य वेब
4. (क) पादप वर्गिकी के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। प्राचीन भारत में पादप वर्गिकी का वर्णन कीजिए। 5
- (ख) एक वर्गिकीय कुंजी की रचना और उपयोग का वर्णन कीजिए। कुंजियों के प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए और इनमें से प्रत्येक की कमियों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। 5
5. (क) उदाहरण देकर विवेचना कीजिए कि किस प्रकार पादप रसायन विज्ञान से साक्ष्य पादप वर्गिकी की समस्या सुलझाने में सहायक हो सकते हैं। 5
- (ख) वर्गिकीय पदानुक्रम की संकल्पना को समझाइए और विभिन्न श्रेणियों को उच्चतम से निम्नतम में व्यवस्थित कीजिए। 5
6. (क) वर्गीकरण के प्रकारों की सूची बनाइए और इनमें से किसी एक की उसके लाभों और कमियों के साथ विवेचना कीजिए। 5
- (ख) प्रजाति की संकल्पना को समझाइए। 5

7. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ

लिखिए :

$$4 \times 2 \frac{1}{2} = 10$$

- (क) रॉयल वानस्पतिक उद्यान, क्यू
- (ख) मोनोग्राफ अथवा मैनुअल
- (ग) किनारे पर छिद्रित कार्ड
- (घ) वैज्ञानिक नाम और उनके लाभ
- (ङ) OTU (ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट)
-